

## पाठ – 11 ( चावल कि रोटियाँ )

### कठिन शब्द

1. अभिनय
2. फूलदान
3. चहचहाने
4. जम्हाई
5. भौंकना
6. दस्तक
7. भुक्खड़
8. तशतरी
9. स्वादिष्ट
10. खुशकिस्मती
11. बदकिस्मती
12. फुंसियाँ
13. शुक्रिया

### शब्द – अर्थ

1. दस्तक – दरवाजा खटखटाना
2. भुक्खड़ – भूखा / पेटु
3. तशतरी - चोटी प्लेट
4. स्वगत – अपने आप
5. यकीन – विश्वास

### विलोम शब्द

1. खराब x ठीक
2. धोना x गंदा करना
3. भरा x खाली करना
4. झूठ x सच
5. गरम x ठंडा
6. खुशकिस्मती x बदकिस्मती
7. शाम x सवेरा
8. खुशबू x बदबू

### रिक्त स्थानों की पूर्ति करो –

1. कोको आठ साल का एक बर्मी लड़का था !
2. तीन सु कोको का दोस्त था !

3. कोको के माता – पिता धन लगाने खेतों में गए थे !
4. माँ ने कोको के लिए चावल की चार रोटियाँ बनाई !

### **निम्न मुहावरों के अर्थ लिखो –**

1. पेट मलना – भूख लगना
2. पेट में चूहे दौड़ना – भूख लगना
3. होठों पर जीभ फेरना – जी ललचाना

### **प्रश्न -1 कोको के माता – पिता कहाँ गए ?**

उत्तर – कोको के माता – पिता खेतों में धान लगाने गए थे !

### **प्रश्न -2 कोको की माँ ने नाश्ते में क्या बना कर रखा था ?**

उत्तर – कोको की माँ ने नाश्ते में चावल की चार रोटियाँ बना कर रखी थी !

### **प्रश्न -3 निनि कोको के घर क्यों आया था ?**

उत्तर – निनि कोको के घर रेडियो पर रेडियो पर एक समाचार सुनने आया था !

### **प्रश्न – प्रश्न -4 कोको ने निनि से रोटियाँ कहाँ छुपाई ?**

उत्तर –कोको ने निनि से रोटियाँ रेडियो के पीछे छुपाई !

### **प्रश्न -5 मिमी कोको के लिए या लेकर आई ?**

उत्तर – मिमी कोको के लिए केले के पापड़ लेकर आई !

### **प्रश्न – 6 कोको ने मिमी से क्या झूठ बोला ?**

उत्तर – कोको ने मिमी से यह झूठ बोला कि उसने सारी रोटियाँ खा ली हैं !

### **प्रश्न 7 उ बा तुन कौन थे ?**

उत्तर – उ बा तुन जनता कि दुकान के प्रबंधक थे !

**# संबंधबोधक शब्द** – वे शब्द या शब्दों के समूह को आपस में जोड़ते हैं , या संबंध बताते हैं , संबंधबोधक शब्द कहलाते हैं !

जैसे – 1) मैं कल रमेश के घर गया !

2) मेरे बस्ते में एक पेन है !